



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 758 राँची, शुक्रवार,

27 सितम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2019

संख्या-11/स्था०रा०पि०व०आ०-1/2012(खण्ड-1) का० 7632-- झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9 में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचना सं०-8810, दिनांक-07.10.2016 द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग में अध्यक्ष के पद पर मनोनयन द्वारा नियुक्त (सेवानिवृत्त न्यायाधीश), श्री लोकनाथ प्रसाद को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि (10.10.2019) से अगले तीन वर्षों तक के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः मनोनीत करते हुए नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-4 के अधीन इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों का होगा। तथापि वे किसी भी समय अपने कार्यभार से इस्तीफा दे सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
